



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260011
CG-DL-E-09012025-260011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2025/पौष 18, 1946

No. 08]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2025/PAUSHA 18, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2025

निधन सूचना

सं. 3/2/2024 पब्लिक.—भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसम्बर, 2024 को रात्रि 9:51 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में निधन हो गया।

2. अविभाजित भारत के पंजाब प्रान्त के पश्चिमी पंजाब के गाह गांव में 26 सितम्बर, 1932 को जन्मे डॉ. सिंह का अकादमिक करिअर उत्कृष्ट रहा। उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ अपनी ट्राइपोस प्राप्त की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 1962 में डी. फिल की उपाधि प्रदान की गयी।

3. डॉ. सिंह ने अपना कैरिअर पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में शुरू किया और उसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में, वे दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। डॉ. मनमोहन सिंह 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (1972-76), आर्थिक कार्य विभाग के सचिव (नवम्बर, 1976 से अप्रैल, 1980), योजना आयोग के सदस्य सचिव (अप्रैल, 1980 से सितम्बर, 1982) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर (सितम्बर, 1982 से जनवरी, 1985) रहे।

4. डॉ. सिंह को उनके जीवन काल में अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया जिनमें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण (1987), भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार (1995), वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड (1993), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ अवार्ड (1956) प्रमुख हैं।
5. डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। आर्थिक सुधारों की व्यापक नीति लाने में उनकी भूमिका अहम है। डॉ. सिंह 22 मई, 2004 को भारत के प्रधानमंत्री बने और मई, 2009 तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। वह मई 2009 से 2014 तक दूसरे कार्यकाल के लिए भी प्रधानमंत्री बने।
6. डॉ. मनमोहन सिंह ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण राजनेता, प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक प्रतिष्ठित नेता खो दिया है।

गोविंद मोहन, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2025

OBITUARY

No. 3/2/2024-Public.—Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister of India passed away on 26th December, 2024 at 9:51 PM at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

2. Born on September 26, 1932, in village Gah, West Punjab in the Punjab province of undivided India, Dr. Singh had a brilliant academic career. He obtained Master's degree in Economics from Panjab University in 1954, and received his Tripos in Economics from University of Cambridge in 1957 with First Class Honours. He was awarded D. Phil Degree by University of Oxford in 1962.

3. Dr. Singh began his career as a Senior Lecturer in Panjab University, Chandigarh and became Professor of Economics in the same University. In 1969, he became Professor of International Trade in the Delhi School of Economics, Delhi University. Dr. Manmohan Singh became Economic Adviser in 1971 in the then Ministry of Foreign Trade. He was Chief Economic Adviser, Ministry of Finance (1972-76), Secretary, Department of Economic Affairs (November 1976 to April 1980), Member Secretary, Planning Commission (April 1980 to September 1982), and Governor of Reserve Bank of India (September 1982 to January 1985).

4. Among the many awards and honours conferred upon Dr. Singh in his career, the most prominent are India's second highest civilian honour, the Padma Vibhushan (1987), the Jawaharlal Nehru Birth Centenary Award of Indian's Science Congress (1995), the Euro Money Award for Finance Minister of the year (1993), the Adam Smith Prize of the University of Cambridge (1956).

5. Dr. Manmohan Singh served as India's Finance Minister between 1991 to 1996. His role in ushering in a comprehensive policy of economic reforms is well recognized. Dr. Singh became the Prime Minister of India on 22nd May, 2004 and served as Prime Minister till May, 2009. He became Prime Minister for the second term from May 2009 to 2014.

6. Dr. Manmohan Singh has left his imprint on our national life. In his passing away, the Nation has lost an eminent statesman, renowned economist and a distinguished leader.

GOVIND MOHAN, Home Secy.